



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1933 (श0)
(सं0 पटना 78) पटना, मंगलवार, 13 मार्च 2012

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

7 मार्च 2012

सं0 3/एच०-04/2011-सा०-3736—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 3713, दिनांक 07.12.2011 के तहत दिनांक 09.03.2012 को होली के अवसर पर बिहार सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं सभी राजस्व दण्डाधिकारी न्यायालयों के लिए कार्यापालक आदेश के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

विभिन्न बैंक एशोसिएशनों से राज्य के कुछ हिस्सों में दिनांक 08.03.2012 को तथा कुछ हिस्सों में दिनांक 09.03.2012 को होली मनाये जाने के कारण दिनांक 09.03.2012 को भी एन.आई. एक्ट के तहत अवकाश घोषित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

उक्त अनुरोध पर विचारोपरान्त दिनांक 09.03.2012 (शुक्रवार) को होली के लिए एन.आई.एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। यह अवकाश एन.आई.एक्ट के तहत दिनांक 08.03.2012 को घोषित अवकाश के अतिरिक्त होगा।

उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 03/एच०-04/2011सा०-3713 दिनांक 07.12.2011 की अनुसूची-3 एवं 1 में तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 78-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>